

## प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 14 जून, 2018 को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा रक्तदाता जागरूकता रैली का आयोजन प्रातः 7 बजे किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो० एम०एल०बी० भट्ट, कुलपति किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि श्री कौशलराज शर्मा, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा रक्तदाता जागरूकता रैली को झण्डा दिखाकर रवाना किया गया। उपरोक्त रैली चिकित्सा विश्वविद्यालय के शताब्दी फेज-2 के प्रांगण से प्रारम्भ होकर शहीद स्मारक तक गई। इस अवसर पर श्री कौशलराज शर्मा ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है कि आप लोग रक्तदान के प्रति जागरूकता के लिए रैली निकाल रहे हैं। आज के दिन हमें यह पता चलता है कि हमें जितना ब्लड की जरूरत होती है उतना पूरा हो पता है की नहीं। रक्त एक शरीर का एक ऐसा कम्पोनेंट है जिसे हम कृत्रिम तरीके से नहीं बना पाता है और ना ही हम इसे किसी और जन्तु या जानवरों से ले सकते हैं। इंसान का रक्त ही इंसान को चढ़ाया जा सकता है। भगवान ने भी ऐसी परम्परा विकसित की है कि किसी भी धर्म जाती का व्यक्ति हो वो किसी भी दूसरे धर्म जाती के व्यक्ति को भी रक्त दे सकता है और दूसरे की जान बचा सकता है। आज का दिन इस लिए ही है कि साल के 365 दिनों में जो भी रक्त की जरूरत हो वो किसी ना किसी तरह से पूरा हो सके। रक्त जब कोई एक व्यक्ति डोनेट करता है तभी वो दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। इसकी जरूरत भी तभी पड़ती है जब लोगो की जान पर बन आती है। रक्त प्राण रक्षक तो होता है किंतु जीवन रक्षक वो व्यक्ति होता है जो रक्त दाता होता है। रक्त दान कर हम सामज की सेवा कर सकते हैं और यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। हमें समाज के उन लोगो तक भी रक्त दान के लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी जो केवल अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, कि वो लोग भी 6 महीने में एक बार रक्त दान कर दिया करें। रक्त दान एक महा दान है। कार्यक्रम में प्रो० एम०एल०बी० भट्ट ने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग एक बहुत बड़ा ब्लड बैंक है जहां पर वार्षिक 70,000 यूनिट रक्त एत्रित किया जाता है। रक्त दान बहुत ही आवश्यक है इससे कितने सारे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। रक्त दान के लिए समाज को जागरूक करना पड़ेगा। कार्यक्रम में डॉ० तुलिका चंद्रा, विभागाध्यक्ष ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने बताया कि उपरोक्त रैली में यूपीएसएसीएस एवं केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तथा इस अवसर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग एवं यूनाईटेड संस्था के संयोजन से रक्त दान शिविर का भी आयोजन किया गया। उपरोक्त आयोजन का शुभारम्भ डॉ० संयुक्ता भाटीया, महापौर, लखनऊ, नगर निगम के कर कमलौ द्वारा हुआ जिसमें केजीएमयू से श्री पंकज कुमार सिंह, श्री रोहित, श्री बृजेश कुमार यादव, सत्येंद्र सहित 36 लोगो ने रक्त दान किया।

इस अवसर पर प्रो० सूर्य कांत, विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, केजीएमयू, प्रो० संदीप तिवारी, विभागाध्यक्ष, ट्रॉमा सर्जरी विभाग, प्रो० राजीव अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, एसजीपीजीआई, श्री आर०एस दिक्षीत एवं डा० गीता अग्रवाल आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

प्रो० नरसिंह वर्मा प्रो० विभा सिंह

संकाय प्रभारी संकाय प्रभारी

मीडिया सेल, केजीएमयू मीडिया सेल केजीएमयू